



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 23.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**




## महोबा पुलिस द्वारा मनाया गया “पुलिस झंडा दिवस”

आज दिनांक 23.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में “पुलिस झंडा दिवस” के अवसर पर झंडा फहराकर गार्ड द्वारा सलामी दी गई तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा पुलिस कार्यालय में झंडा फहराकर गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद डीजीपी महोदय का सन्देश पढ़कर पुलिस कर्मियों को सुनाया गया।

पुलिस अधीक्षक ने अपने सम्बोधन में बताया कि आज का दिन 30प्र0पुलिस बल के लिए बहुत ही गौरवशाली व ऐतिहासिक दिन है, कहानियाँ व्यक्तित्व को स्थापित करती हैं तथा इतिहास एक संगठन को बनाता है। आज ही के दिन 23 नवम्बर सन् 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरु जी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को 'पुलिस कलर'(ध्वज) प्रदान किया गया था। यह ध्वज जहाँ हमारे चरित्र को दर्शाता है वहीं हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी है। जिससे हमने देश सेवा एवं लोक सेवा में अपने कौशल,शौर्य व कर्तव्यपरायणता से अप्रतिम योगदान दिया है। यह ध्वज हमारे लिए प्रेरणादायी है तथा इस ध्वज के फहराने मात्र से हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है।

उत्तर प्रदेश पुलिस का यह ध्वज हमें पुलिस धर्म को निभाने की प्रेरणा देता है। हम सद्जनों की रक्षा एवं दुष्टता का नाश करने हेतु वर्दीधारण करते हैं हमारे अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप ही हमें यह ध्वज प्रदान किया गया है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है 30प्र0पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है जिसे सर्वप्रथम पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था।

इसी क्रम में जनपद के सभी थानों/चौकियों में पुलिस झंडा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा पुलिस कर्मियों द्वारा आपस में झंडा दिवस का स्टीकर लगाकर खुशियाँ मनाई गयी।





# प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 23.11.2021

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## लगभग 04 लाख रु0 के 21 खोये हुए मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस द्वारा बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किये गये...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदवासियों के गुम/खोये हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय अवस्थित सर्विलांस शाखा के नेतृत्व में निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में सर्विलांस शाखा द्वारा 21 अदद मोबाइल फोन जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 400000/-रूपये (चार लाख रूपये /-) है की बरामदगी की गई, बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को बुलाकर आज दिनांक 23.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सुपुर्द गये, अपने खोये हुए मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और महोबा पुलिस/सर्विलांस सेल द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुये सहृदय धन्यवाद दिया।

### मोबाइल स्वामियों का विवरण...।

1. प्रवीण गुप्ता नि0 इन्दिरा नगर, थाना कबरई, महोबा 2. गुलेश पुत्र समशुद्दीन नि0 ग्राम स्यावन थाना अजनर, महोबा 3. राम आसरे पुत्र ध्रुवप्रसाद नि0 ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी, महोबा 4. अमित साहू, शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक, सिजहरी थाना श्रीनगर, महोबा 5. मिथलेश पुत्र स्वामी प्रसाद सोनी नि0 ग्राम कुढ़ई थाना अजनर, महोबा 6. देवेन्द्र कुमार पुत्र उत्तम यादव नि0 ग्राम बबेडी, महोबा 7. भानू प्रताप सिंह सहायक उद्यान निरीक्षक, महोबा

8. अमित पुत्र धनश्याम राना नि0 जेल के पीछे सुभाष नगर, थाना कोतवाली, महोबा 9. महादेव पुत्र कृपा शंकर नि0 कबरई थाना कबरई, महोबा 10. पुष्पा पत्नी राजीव तिवारी नि0 गांधी नगर थाना कोतवाली, महोबा 11. मोनू कुमार पुत्र पुन्ना लाल नि0 ग्राम धनोरी थाना राठ, हमीरपुर 12. अनिल कुमार पुत्र पून चन्द्र नि0 ग्राम जुझार थाना कोतवाली, महोबा 13. सतीश कुमार प्रथम श्रेणी लिपिक जिला पंचायत महोबा 14. रामनरेश पुत्र बाबू राम नि0 ग्राम अकठौहाँ थाना चरखारी, महोबा 15. सौरभ सोनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी नि0 मलकपुरा थाना कोतवाली, महोबा 16. महेन्द्र पुत्र रामसेवक नि0 काली पहाडी थाना कोतवाली, महोबा 17. जितेन्द्र कुमार पुत्र भागवत प्रसाद नि0 नयापुरा थाना कोतवाली, महोबा 18. पिन्टू पुत्र महेश कुमार नि0 विशाल नगर थाना कबरई, महोबा 19. भारत कुमार पुत्र हरगोविन्द नि0 भाटीपुरा थाना कोतवाली, महोबा 20. महेन्द्र सिंह पुत्र भज्जु यादव नि0 ग्राम सीगौन थाना अजनर, महोबा 21. मु0 शकील पुत्र मु0 रफीक अहमद नि0 भीतरकोट थाना कोतवाली, महोबा



### खोये मोबाइल बरामद करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी सर्विलांस/साइबर सेल
2. कां0 अंशुल दुवे 3. कां0 दीपक वर्मा
4. कां0 सत्यम सिंह जादौन 5. कां0 सुरजीत कुमार



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 23.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में महोबकंठ **SHO** श्रीमती रीता सिंह के द्वारा गठित उ0नि0 सुनील कुमार व का0 सौरभ सम्मिलित होकर कस्बा व थाना महोबकंठ से 01 नफर वारंटी अभियुक्त भागीरथ मिश्रा पुत्र मंशाराम मिश्रा निवासी कस्बा व थाना महोबकंठ जिला महोबा मु0स0 652/2019 धारा 452/354 भादवि सम्बन्धित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड जिला महोबा में वारन्टी था जिसको गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित माननीय न्यायालय महोबा भेजा गया।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 सुनील कुमार
2. का0 सौरभ

### **गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-**

भागीरथ मिश्रा पुत्र मंशाराम मिश्रा निवासी कस्बा व थाना महोबकंठ जनपद महोबा।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 23.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार द्वारा गठित उ0नि0 अनुराग पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने अभियान के तहत वारण्टी अभियुक्त नवल किशोर पुत्र रामसेवक उम्र 25 वर्ष सम्बन्धित परिवार संख्या 2967/2018 धारा 504/506 भादवि को ग्राम छिकहरा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त -**

नवल किशोर पुत्र रामसेवक उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली जिला महोबा

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 अनुराग पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद महोबा
2. कां0 शिवकुमार





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 23.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.11.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री लाखन सिंह द्वारा गठित उ.नि. गोपालचन्द कन्नौजिया के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर अभियुक्त वीरेन्द्र प्रताप सिंह S/O स्व. दयाशंकर सिंह नि. ग्राम करिया गोपालपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से एक बोरी में 18 सीसी अवैध देशी शराब ठेका बरामद की गयी जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुये थाना हाजा पर मु.अ.स. 206/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम का पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. गोपालचन्द कन्नौजिया थाना अजनर जिला महोबा
2. हे.का. रतन सिंह व थाना अजनर जिला महोबा
3. का. मुलायम यादव थाना अजनर जिला महोबा

### गिरफ्तार अभियुक्त

वीरेन्द्र प्रताप सिंह S/O स्व. दयाशंकर सिंह नि. ग्राम करिया गोपालपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 23.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



**जनपदीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक**



दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत यातायात प्रभारी तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक तथा राहगीरों को यातायात नियमों के संबंध में पम्पलेट भी दिए गये।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **146** ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 23.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि